



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17—जनवरी 23, 2009 (पौष 27, 1930)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17—JANUARY 23, 2009 (PAUSA 27, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400021, दिनांक 12 जनवरी 2009

सूचना

दिनांक 16 दिसम्बर 2008 की सूचना के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के एक रिक्त पद के लिए, यथाविधि नामित चुनाव-प्रत्याशियों के नाम और पते दिए गये थे। इस सूचना के संदर्भ में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 जनवरी 2009 को बैंक के आडिटोरियम, स्टेट बैंक के पीछे, मैडम कामा रोड शाखा, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र), में आयोजित शेयरधारकों की बैठक में निम्नलिखित प्रत्याशी को बैंक के केन्द्रीय-बोर्ड में यथाविधि निर्वाचित निदेशक के रूप में घोषित किया गया है :--

श्री डी. सुंदरम
21बी, स्टर्लिंग अपार्टमेंट
पेडर रोड
मुंबई-400026

एस. के. भट्टाचार्य
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
नई दिल्ली-110002

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संलग्न तुलनपत्र की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उससे संलग्न आय और व्यय लेखा की भी लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण संस्था के प्रबंध-मंडल की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित राय व्यक्त करना है।
2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से योजना बना कर करें कि जिससे समुचित रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण तात्त्विक रूप से गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा के अंतर्गत, परीक्षण के आधार पर, ऐसे साक्ष्य की परीक्षा करना है जो वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रगटनों का समर्थन करते हों। लेखा परीक्षा में प्रबंध मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखा करण सिद्धान्तों और किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना और साथ ही प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन करना भी है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।
3. निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :-
(1) अनुसूची-13 में दिखाया गया टिप्पण सं. 5(1) पेंशन निधि के प्रावधान में 45,48,423 रु. की कमी होने के संबंध में है।
4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, हमारा यह कथन है कि :
क) हमने वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
ख) हमारी राय में, परिषद् द्वारा, विधि द्वारा यथा अपेक्षित, समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी परीक्षा से दर्शित होता है; और
ग) इस रिपोर्ट में बताई गई वित्तीय स्थिति का विवरण और आय-व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।
5. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार ऊपर पैरा (3) में हमारे संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए, लेखाकरण नीतियों और लेखागत टिप्पणों (अनुसूची-13) के साथ पठित वित्तीय विवरण :
क) तुलनपत्र की दशा में, 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार परिषद् की गतिविधियों का और
ख) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त वर्ष में बचत का
भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह. / -

(एम.पी. ठाकुर)

भागीदार

एम. नं. 52473

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 15 सितम्बर, 2008

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

अनुसूची		31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
निधियों के स्रोत			
मुख्य निधि	1	46,964,812.52	41,236,225.87
आवंटित निधि	2	61,659,336.27	49,439,036.49
अस्थियां निधि (सहायता अनुदान)	3	851,404.00	334,830.00
ऋण एवं अग्रिम	4	2,000,000.00	2,000,000.00
संबद्ध संस्थाओं से प्रतिभूति निक्षेप		52,175,000.00	47,175,000.00
योग		163,650,552.79	140,185,092.36
निधियों का उपयोगन			
स्थिर आस्तियां			
सकल ब्लाक	5	23,071,045.34	22,277,273.24
घटाइए : अवक्षयण		17,200,810.49	16,297,950.39
शुद्ध ब्लाक		5,870,234.85	5,979,322.85
आवंटित निवेश	6	61,659,336.27	49,439,036.49
अन्य निवेश			
अनुसूचित बैंकों में जमा रकम	7	95,218,830.00	82,331,079.00
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	8	19,551,978.10	18,590,505.67
घटाइए : चालू दायित्व			
और प्रावधान	9	7,484,826.43	6,419,851.65
शुद्ध : चालू अस्तियां		12,067,151.67	12,170,654.02
घटाइए : अग्रिम रूप में प्राप्त निरीक्षण फीस		11,165,000.00	902,151.67
योग		163,650,552.79	140,185,092.36
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखाकरण			
नीतियों पर टिप्पणी	13		
अनुसूची 1 से 13 लेखा के अभिन्न अंग हैं।			
सम संख्यांक तारीख			
की हमारी रिपोर्ट के			
अनुसार			
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.			
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
ह/-			
(एम. पी. ठाकुर)			
भागीदार	ह/-	ह/-	ह/-
स्थान : नई दिल्ली	लेखा अधिकारी-सह-	सचिव	अध्यक्ष
तारीख : 15 सितम्बर 2008	सहायक सचिव, भा. वि. प.	भा. वि. प.	भा. वि. प.

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

	अनुसूची	चालू वर्ष रु.	पूर्व वर्ष रु.
आय			
फीस	10	8,773,152.49	8,304,119.34
निरीक्षण फीस		15,105,000.00	16,465,000.00
रजिस्ट्रेशन फीस		25,000.00	90,000.00
भवन लाइसेंस फीस		638,640.00	638,640.00
अन्य आय	11	8,092,888.16	4,572,433.00
आस्ति निधि (सहायता अनुदान से अंतरित रकम)		233,426.00	465,170.00
योग		32,868,106.65	30,535,362.34
व्यय			
वेतन, भत्ते और			
कर्मचारी सुविधाएं	12	7,909,356.00	7,506,848.00
परिषद् के बैठक व्यय		13,234,396.00	9,761,607.00
अवक्षयण	5	909,715.00	1,230,112.00
अन्य स्थापन व्यय		6,858,272.00	7,709,972.42
नगरपालिका कर (जिसमें पूर्व वर्ष की 43,81,603		79,023.00	4,412,058.00
रु. की और उससे पूर्व वर्ष से संबंधित शून्य रु. की			
राशि भी है। (देखिए अनुसूची 13 का टिप्पणी -1)			
योग		28,990,762.00	30,620,597.42
घटाइए : कल्याण निधि से			
प्रशासन व्यय के लिए वसूली		(-) 1,851,242.00	1,477,363.00
(देखिए अनुसूची-2)		27,139,520.00	29,143,234.42
मुख्य निधि से अंतरित			
वर्ष की बचत		5,728,586.65	1,392,127.92
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखाकरण			
नीतियों पर टिप्पणी	13		
अनुसूची 1 से 13 लेखा की अभिन्न अंग है।			
सम संख्यांक तारीख			
की हमारी रिपोर्ट के			
अनुसार			
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.			
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स			
(एम. पी. ठाकुर)			
भागीदार	ह/-	ह/-	ह/-
स्थान : नई दिल्ली	लेखा अधिकारी-सह-	सचिव	अध्यक्ष
तारीख : 15 सितम्बर 2008	सहायक सचिव, भा. वि. प.	भा. वि. प.	भा. वि. प.

भारतीय विधिज्ञ परिषद्		
अनुसूची-1		
मुख्य निधि		
	31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		
अतिशेष	41,236,225.87	39,844,097.95
जोड़िए: वर्ष की बचत/कमी	5,728,586.65	1,392,127.92
योग	<u>46,964,812.52</u>	<u>41,236,225.87</u>

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-2**

	31.3.2008 को		31.3.2007 को	
	रु.		रु.	
आबंटित निधियां				
(i) कल्याण निधि				
1.4.2007 को अतिशेष	36,659,235.99		29,948,580.99	
घटाइए भा.वि.प. को संदाय	1,078,433.00		763,415.00	
शुद्ध अतिशेष 1.4.2007 को		35,580,802.99		29,185,165.99
जोड़िए: आय				
राज्य विधिज्ञ परिषद् से अभिदाय	9,256,211.78		7,386,813.00	
प्राप्त ब्याज	3,509,309.00		1,664,094.00	
प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	77,500.00		35,100.00	
	12,843,020.78		9,086,007.00	
घटाइए : अधिवक्ताओं को सहायता	1,178,000.00		1,209,000.00	
बैंक प्रभार	8,085.00		4,007.00	
प्रशासन व्यय (आय और व्यय	1,851,242.00	9,805,693.78	1,477,363.00	6,395,637.00
लेखा के अनुसार)				
जोड़िये : विविध देनदार - भा.वि.प.		—		1,078,433.00
		45,386,496.77		36,659,235.99
(ii) भविष्य निधि				
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	4,798,978.93		4,257,272.93	
जोड़िए : चंदा	313,704.00		314,467.00	
जोड़िए : स्वेच्छिक चंदा	462,400.00		452,608.00	
जोड़िए : प्राप्त ब्याज	390,451.00		277,007.00	
	5,965,533.93		5,301,354.93	
घटाइए : स्थायी आहरण	—		—	
घटाइए : वर्ष के दौरान संदाय	166,996.00	5,798,537.93	502,376.00	4,798,978.93
(iii) उपदान निधि				
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	2,860,181.57		1,771,951.57	
जोड़िए : प्राप्त अभिदाय	515,248.00		763,849.00	
जोड़िए : प्राप्त होने वाला अभिदाय	—		468,435.00	
जोड़िए : प्राप्त ब्याज	214,132.00		109,550.00	
घटाइए : संदाय	81,837.00	3,507,724.57	253,604.00	2,860,181.57
(iv) पेंशन निधि				
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	5,120,640.00		3,473,982.00	
जोड़िए : प्राप्त अभिदाय	1,427,157.00		1,465,429.00	
जोड़िए : प्राप्त ब्याज	543,646.00		257,131	
जोड़िए : पूर्व कर्मचारियों से प्राप्त	—		—	
होनी वाली रकम	7,091,443.00		5,196,542.00	
घटाइए : संदाय	124,866.00	6,966,577.00	75,902.00	5,120,640.00
		योग		
		61,659,336.27		49,439,036.49

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-3**

	31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
अस्तिधां निधि (सहायता अनुदान)		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	334,830.00	—
	750,000.00	800,000.00
योग	1,084,830.00	800,000.00
 घटाइए : आय और व्यय लेखा में अंतरित रकम		
	233,426.00	465,170.00
योग	851,404.00	334,830.00

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-4
ऋण और अग्रिम**

	31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
ऋण और अग्रिम		
भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास से अग्रिम	2,000,000	2,000,000
योग	2,000,000	2,000,000

अनुसूची-5 भाग क		भारतीय विधिज्ञ परिषद् 31.3.2008 को स्थिर अस्थियां (रकम रुपए में)									
क्र. सं.	विशिश्टियां	सकल क्ताक				अवक्षयण				शुद्ध क्ताक	
		1.4.2007 को	सर्वपन अपवर्धन	विक्रय/ विनिमय/ समायोजन	31.3.2008 को	1.4.2007 वर्ष को	2007-08 के लिए समायोजित	31.3.2008 को	31.3.2007 को	31.3.2008 को	31.3.2007 को
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)-(7)	(9)=	(10)
1.	भूमि	42,030.00			42,030.00	10,905,785.06	383,615.00	...	11,289,400.06	42,030.00	42,030.00
2.	भवन	14741937.40			14741937.40	663,173.13	4828.00	...	668,001.13	3,452,537.34	3,836,152.34
3.	लिफ्ट	695,361.63			695,361.63	615,081.00	36722.00	...	651,803.00	27,360.50	32,188.50
4.	फर्नीचर और फिटिंगें	982,299.54			982,299.54	206,291.00	10664.00	...	216,955.00	330,486.54	367,218.54
5.	विजली की फिटिंगें	311,159.55	335.00		314,694.55	460,023.30	42584.00	...	502,607.20	97,739.55	104,868.55
6.	कार्यालय उपस्कर	739,117.90	9600.00		748,717.90	391,780.00	27146.00	...	418,926.00	246,110.60	279,094.60
7.	एयर कंडीशनर/कूलर	572,754.32			572,754.32	16,839.00	111.00	...	16,950.00	153,828.32	180,974.32
8.	रेफ्रिजरेटर/गैस	17580.00			17580.00	6,854.90	...	6854.00	...	630.00	741.00
9.	कार्यालय साइकिल	9144.90			9144.90	113,357.00	9,615.00	...	122,972.00	...	2,290.00
10.	पुस्तकें और प्रकाशन	122,972.00			122,972.00	116,568.00	1029.00	...	117,597.00	5,828.00	9,615.00
11.	डी.जी. सैट	123,425.00			123,425.00	611,082.00	49,371.00	...	660,453.00	35,514.00	6,857.00
12.	कम्प्यूटर्स	683,747.00	12230		695,967.00	21,528.00	807.00	...	22,335.00	4,575.00	72,665.00
13.	वाटर कूलर	26910.00			26910.00	784,106.00	42,861.00	...	826,967.00	242,879.00	5,382.00
14.	ट्रांसफार्मर	1,069,846.00			1,069,846.00	920,312.00	66,996.00	...	987,248.00	379,302.00	285,740.00
15.	अग्निशामक उपस्कर	1,338,988.00	27,562		1,366,550.00	418,676.00
	योग	21,477,273.24	52,977.00	9,144.90	21,521,045.34	15,832,780.39	676,289.00	6,854.90	16,502,214.49	5,018,830.85	5,644,492.85
	पूर्व वर्ष	21,078,219.24	442,771.00	43,723.00	21,477,273.24	15,093,269.39	764,942.00	25,431.00	15,832,780.39	5,644,492.85	...

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-5 भाग ख
स्थिर अस्तित्वा- सहायता अनुदान

क्र. सं.	विशिष्टियां	अवश्यता की दर (%) वार्षिक	सकल ब्लाक			अवश्यता				शुद्ध ब्लाक		
			14.2007 को (1)	परिवर्धन/ अपवर्धन (2)	समायोजन (3)	31.3.2008 को (1)+(2) (4)	14.2007 को (5)	2007-2008 के लिए	समायोजन	31.3.2008 को (6)=(4)+(5) (6)	31.3.08 को (7)=(3)+(6) (7)	31.3.07 (8)
1.	भवन	10%	26,651.00	383,646.00	-	410,297.00	2,665	21,581.00	-	24,246	386,051.00	23,986.00
2.	फर्नीचर और फिटिंगे	10%	124,248.00	60,377.00	-	184,625.00	12,425	14,201.00	-	26,626	157,999.00	111,823.00
3.	एयर कंडीशनिंग/कूलर	15%	47,700.00	51,800.00	-	99,500.00	7,155	9,957.00	-	17,122	82,378.00	40,545.00
4.	पुस्तकें और प्रकाशन	100%	205,211.00	81,695.00	-	286,906.00	205,211	40,846.00	-	246,057	40,847.00	-
5.	कम्प्यूटर्स	60%	396,190.00	172,484.00	-	568,674.00	237,714	146,831.00	-	384,545	184,129.00	158,476.00
	योग		800,000.00	750,000.00	-	1,550,000.00	465,170	233,426.00	-	698,596	851,404.00	334,830.00
	सकल योग (क+ख)		22,777,273.24	802,917.00	9,144.90	23,071,045.34	16,297,980.39	909,715.00	6,854.90	17,200,810.49	5,870,234.85	899,777.85
	पूर्व वर्ष		21,078,219	1,242.77	43,723	22,277,273.24	15,093,269.39	1,230,112	25,431	16,299,809.91	5,979,372.85	

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-6**

	31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
आबंटित निवेश		
(i) कल्याण निधि निवेश		
यूको बैंक बचत खाता	764,432.99	177,169.99
सं. 9363 में अतिशेष		
यूको बैंक में सावधिक जमा	13,331,950.00	13,331,950.00
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	2,562,549.00	2,562,549.00
भा. स्टेट बैंक में सावधिक जमा	13,459,889.00	13,459,889.00
सिंडीकेट बैंक में सावधिक जमा	5,074,580.00	5,074,580.00
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	5,431,000.00	1,931,000.00
उद्भूत व्याज	3,596,803.00	122,098.00
	<u>1,165,292.78</u>	<u>---</u>
	45,386,496.77	36,659,235.99
(ii) भविष्य निधि निवेश		
यूको बैंक बचत खाता सं. 261025	514,830.09	394,025.09
में अतिशेष		
यूको बैंक में विशेष जमा	1,190,217.00	1,190,217.00
यूको बैंक- सावधिक जमा रसीदें	1,654,828.00	854,828.00
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	360,237.00	360,237.00
सिंडीकेट बैंक में सावधिक जमा	1,129,858.00	1,129,858.00
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	500,000.00	500,000.00
भ. नि. ऋण	140,027.29	330,327.29
उद्भूत व्याज	308,540.55	39,486.55
	<u>5,798,537.93</u>	<u>4,798,978.93</u>
(iii) उपदान निधि निवेश		
यूको बैंक बचत खाता सं. 440	481,055.07	332,322.07
में अतिशेष		
यूको बैंक में विशेष जमा	318,433.00	318,433.00
यूको बैंक में सावधिक जमा	2,528,423.00	1,728,423.00
उद्भूत व्याज	179,813.50	12,568.50
विविध देनदार भा. वि. प.	<u>---</u>	<u>468,435.00</u>
	3,507,724.57	2,860,181.57
(iv) पेंशन निधि निवेश		
केनरा बैंक बचत बैंक खाता सं.	91,808.00	80,637.00
19116 में अतिशेष		
सिंडीकेट बैंक में जमा	3,00,000.00	---
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	2,679,937.00	2,679,937.00
केनरा बैंक में सावधिक जमा	1,463,701.00	1,463,701.00
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	427,000.00	427,000.00
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	450,000.00	450,000.00
यूको बैंक में सावधिक जमा	1,000,000.00	---
उद्भूत व्याज	554,131.00	19,365.00
	<u>6,966,577.00</u>	<u>5,120,640.00</u>
योग	<u>61,659,336.27</u>	<u>49,439,036.49</u>

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-7

	31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
अन्य निवेश		
बैंकों में सावधिक जमा		
भारतीय विधिज्ञ परिषद्		
इलाहाबाद बैंक	3,000,000.00	—
सैंट्रल बैंक	3,271,308.00	3,271,308.00
केनरा बैंक	2,956,644.00	2,956,644.00
यूको बैंक	6,067,205.00	6,067,205.00
भारतीय स्टेट बैंक	2,000,000.00	2,000,000.00
सिंडीकेट बैंक	2,500,000.00	—
	<u>19,795,157.00</u>	<u>14,295,157.00</u>
विधि शिक्षा		
यूको बैंक	587,751.00	500,000.00
केनरा बैंक	7,873,167.00	7,873,167.00
सैंट्रल बैंक	2,113,652.00	2,113,652.00
भारतीय स्टेट बैंक	2,584,691.00	2,584,691.00
सिंडीकेट बैंक	3,749,091.00	3,749,091.00
इलाहाबाद बैंक	3,542,000.00	2,042,000.00
	<u>20,450,352.00</u>	<u>18,862,601.00</u>
विधि महाविद्यालयों से प्रतिभूत निक्षेप (संबद्धता)		
केनरा बैंक	7,263,639.00	7,263,639.00
सैंट्रल बैंक	7,021,475.00	7,021,475.00
यूको बैंक	10,885,139.00	7,885,139.00
भारतीय स्टेट बैंक	10,507,368.00	10,507,368.00
स्टेट बैंक आफ़ पटियाला
सिंडीकेट बैंक	8,481,700.00	8,481,700.00
इलाहाबाद बैंक	10,814,000.00	8,014,000.00
	<u>54,973,321.00</u>	<u>49,173,321.00</u>
योग	<u>95,218,830.00</u>	<u>82,331,079.00</u>

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-8

चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

	31.3.2008 को रु.	31.3.2007 को रु.
चालू आस्तियां		
क) लागत पर पुस्तकों का स्टॉक	7,264.00	10,264.00
(प्रबंध मंडल द्वारा यथा प्रमाणित)		
ख) नकद और बैंक अतिशेष		
केनरा बैंक - 31050	2,615,406.68	2,865,903.74
यूको बैंक - 132	634,343.81	899,035.81
केनरा बैंक - 31065	311,105.90	1,502,798.90
केनरा बैंक - 31313	700,754.00	751,314.00
विभिन्न राज्यों के बैंकों में अतिशेष	4,545,679.26	8,589,831.77
नकद हाथ में	68,379.25	55,510.25
	8,875,668.90	14,664,394.47
ग) प्राप्य रकम		
(i) निवेशों पर उद्भूत ब्याज	8,165,464.00	329,561.00
(ii) प्रतिभूति निक्षेप	1,230,417.00	1,230,417.00
(डिपू और दि.न.नि. + दि.वि.बो. और टेलीफोन (रिलायंस) के पास)		
(iii) राज्य विधिज्ञ परिषदों से	81,314.20	81,314.20
(iv) विविध देनदार - बैंक	—	155,739.00
(v) विविध देनदार - न्यास	43,976.00	64,542.00
(vi) विविध देनदार - अन्य	—	22,584.00
(vii) विविध देनदार - कल्याण निधि	—	1,078,433.00
(viii) प्राप्य निरीक्षण फीस	15,000.00	—
	9,536,171.20	2,962,590.20
घ) ऋण और अग्रिम		
(i) स्टाफ को ऋण	783,095.00	546,383.00
(आवासन, विवाह और अन्य)		
(ii) अग्रिम - सदस्य	5,000.00	5,000.00
- स्टाफ	204,210.00	177,351.00
- अन्य	57,200.00	7,300.00
(iii) पूर्व संदत्त व्यय	83,369.00	73,520.00
(iv) भा.वि.प. न्यास को ऋण	—	143,703.00
	1,132,874.00	953,257.00
योग	19,551,978.10	18,590,505.67

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-9

चालू दायित्व और प्रावधान

	31.3.2008 को	31.3.2007 को
	रु.	रु.
विविध लेनदार	133,996.00	153,239.00
उपदान निधि को देय	296,360.00	468,435.00
अनु. समिति जमा फीस	807,574.65	666,574.65
विधि मंत्रालय से-अप्रयुक्त सहायता अनुदान	700,000.00	750,000.00
भा.वि.प. न्यास को देय	1,165,292.78	...
नगर पालिका को संदेय कर	4,381,603.00	4,381,603.00
योग	7,484,826.43	6,419,851.65

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-10

फीस

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	रु.	रु.
नामांकन फीस	7,341,978.49	7,458,580.34
सदस्यता फीस/स्थानांतरण फीस	824,400.00	489,335.00
अनुशासन समिति और अन्य फीस	606,774.00	356,204.00
योग	8,773,152.49	8,304,119.34

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-11

अन्य आय

	31.3.2008 को	31.3.2007 को
	रु.	रु.
सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	7,923,654.00	4,461,420.00
ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	55,188.00	40,577.00
प्रकीर्ण आय	114,046.16	70,436.00
योग	8,092,888.16	4,572,433.00

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-12**

व्यय	चालू वर्ष रु.	पूर्व वर्ष रु.	
वेतन, भत्ते और कर्मचारी सुविधाएं			
स्थापन / वेतन	4,857,012.00	4,419,403.00	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	223,351.00	221,722.00	
बोनस	43,599.00	46,873.00	
छुट्टी का नकद भुगतान	183,117.00	109,020.00	
छुट्टी यात्रा रियायत	20,598.00	25,310.00	
उपदान निधि खाते में			
परिषद् का अभिदाय	811,608.00	968,435.00	
पेंशन निधि खाते में	1,427,157.00	1,465,429.00	
परिषद् का अभिदाय			
स्टाफ को सवारी भत्ता	342,914.00	250,656.00	
	<u>7,909,356.00</u>	<u>7,506,848.00</u>	
परिषद् बैठक व्यय			
यात्रा - परिषद्	2,513,109.00	2,250,292.00	
यात्रा - अनुशासन समिति बैठक	4,169,061.00	3,239,350.00	
यात्रा - निरीक्षण	4,944,904.00	2,679,177.00	
यात्रा - विधि शिक्षा बैठकें	1,500,914.00	1,497,145.00	
बैठक व्यय	106,408.00	95,643.00	
	<u>13,234,396.00</u>	<u>9,761,607.00</u>	
अन्य स्थापन व्यय			
मुद्रण और लेखन सामग्री	650,072.00	612,911.00	
जल और विद्युत	941,470.00	917,237.00	
विज्ञापन/राजपत्र अधिसूचना	181,546.00	18,260.00	
डाक महसूल, तार और टेलीफोन	518,544.00	451,331.00	
साधारण मरम्मत	334,375.00	267,412.00	
न्यायालय कार्यवाहियां/ आयकर	92,560.00	198,894.00	
फीस/ वृत्तिक व्यय	2,116.00	2,070.00	
पत्र पत्रिकाएं और जर्नल			
लेखा परीक्षा फीस	33,445.00	18,520.00	
बैंक प्रभार	32,315.00	31,057.00	
प्रकीर्ण व्यय	144,350.00	141,039.42	
राज्य विधिज्ञ परिषदों को अभिदाय	823,164.00	550,000.00	
भा.वि.प. न्यास को अभिदाय	2,240,000.00	3,680,000.00	
संगोष्ठी व्यय	—	67,367.00	
सम्मेलन व्यय	620,943.00	399,888.00	
सम्मान समारोह व्यय	84,789.00	199,250.00	
आई बी ए को चंदा	—	—	
सुरक्षा प्रभार	107,868.00	107,585.00	
आई आई सी को चंदा	11,224.00	11,020.00	
बीमा प्रीमियम	37,201.00	35,754.00	
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर घाटा	—	377.00	
स्थिर आस्तियों पर घाटा (मुजरा किया गया)	2,290.00	6,858,272.00	7,709,972.42
योग	<u>28,002,024.00</u>	<u>24,978,427.42</u>	

भारतीय विधिज्ञ परिषद् अनुसूची-13

31 मार्च, 2008 को लेखाकरण नीतियाँ और लेखाओं पर टिप्पण

लेखाकरण नीतियाँ

1. आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है किंतु कल्याण निधि के लिए अभिदायों को रसीद आधार पर लेखागत किए जाने पर मान्यता दी जाती है और विधि महाविद्यालयों के लिए निरीक्षणफीस और उसके व्ययों को विधि महाविद्यालयों के निरीक्षण पर मान्यता दी जाती है।

2. निधि : “निधि” शब्द का प्रयोग इस आशय को प्रकट करने के लिए किया गया है कि अतिशेष अंततः निवेश किए जाने के लिए रखे गए हैं।

(i) मुख्य निधि विधि महाविद्यालयों और अन्य से प्राप्त दानों को तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् की वार्षिक बचत / घाटा को दर्शित करती है।

3. (i) किसी विनिर्दिष्ट निधि से संबंधित ब्याज को तत्संबंधी निधि लेखा में जमा किया गया है।

(ii) अनुसूचित बैंक की सावधिक जमा रसीद पर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की आय साधारण ब्याज दर पर आंकी गई है।

4. स्थिर अस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर अवज्ञयण घटा कर बताया जाता है।

5. स्थिर अस्तियों पर अवक्षयण को आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विहित की गई दरें घटाकर लिखे गए मूल्य पद्धति के आधार पर दिया जाता है।

6. सरकारी अनुदानों को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है। विनिर्दिष्ट स्थिर अस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाता है जिसे लेखा में अस्तियों के उपयोगी होने तक व्यवस्थित और युक्तिमूलक आधार पर मान्यता दी जाती है।

7. निवेशों को “दीर्घ कालिक निवेशों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें लागत आधार पर अग्रणीत किया जाता है क्योंकि सभी निवेश अनुसूचित बैंकों में सावधिक निक्षेपों के रूप में रखे गए हैं।

8. सेवानिवृत्ति फायदे

(i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के पेंशन सह कुटुंब पेंशन नियम तारीख 1.4.2002 से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों को लागू कर दिए गए हैं। तदनुसार “भारतीय विधिज्ञ परिषद्-अभिदायी भविष्य निधि” को रोक दिया गया है और उसके स्थान पर ‘पेंशन निधि’ आरम्भ की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में इसके पूर्व दिए गए अभिदाय और उपगत ब्याज को पेंशन निधि में अंतरित कर दिया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् अपना अभिदाय इस निधि में विनिर्दिष्ट दर पर करती है।

(ii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों के चंदे की रकम, वेतन को लागू दर पर उस पर उद्भूत ब्याज सहित जमा होती है।

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने “उपदान निधि” नामक एक विशेष निधि का गठन किया है। इस निधि में पात्र वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अभिदाय किया जाता है। निधि का प्रशासन परिषद् द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा किया जाता है।

(iv) छुट्टी के नगद भुगतन का, संदाय आधार पर, लेखाकरण किया जाता है।

लेखाओं पर टिप्पण

1 नगरपालिका कर :

क) दिल्ली नगर निगम ने 26.3.1995 को पारित निर्धारण आदेश के आधार पर 1.4.1991 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए अपने तारीख 1.12.2004 के नोटिस के अनुसार 1,46,42,943 रु की मांग की है (जो 33,52,970 रु प्रतिवर्ष के कर योग्य मूल्य पर आधारित है)। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 13.2.1997 के निदेश के अनुसार और परिषद् द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों के अनुसरण में, संयुक्त कर निर्धारक और कलक्टर (सी जेड) ने पुनः भेजे गए मामले के रूप में संपत्ति कर का 17.3.2006 को पुनः कर निर्धारण किया और तदनुसार संपत्ति का कर योग्य मूल्य 1.4.1994 से 6,56,240 रु और प्लॉट (भूखंड) का करयोग्य मूल्य 2000 रु 1.4.1991 से नियत किया और उपरोक्तानुसार बिल जारी करने का निदेश दिया। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने दिल्ली नगर निगम से बिल न मिलने पर भी 1.4.1991 से 31.3.2004 तक की अवधि में लिए 21,71,360 रु की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान कर दिया है और उसे व्यय के रूप में मान्यता दी है।

सहायक निर्धारक और कलक्टर ने 1.12.2006 के नोटिस द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुनरीक्षित कर योग्य मूल्य के आधार पर 1.4.1991 से 31 मार्च, 2004 तक के लिए 43,81,603 रु. के संपत्ति कर की अतिरिक्त मांग की है। इस अतिरिक्त कर का प्रावधान, 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, लेखा में कर दिया गया है। तथापि ऐसी मांग के लिए गणना का ब्यौरा अभी तक दिल्ली नगर निगम से प्राप्त नहीं हुआ है।

2 कल्याण निधि -

क) कल्याण निधि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं से प्राप्त अभिदाय को दर्शित करती है।

ख) कल्याण निधि की 20 प्रतिशत रकम को, प्रशासनिक व्यय की वसूली के रूप में आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है।

3. भविष्य निधि को आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग - क के नियम 3 (1) के अधीन मान्यता प्राप्त है। देखिए पत्र सं. जे पी - 1 (6) / 63/ 332, तारीख 25.12.1965 (आदेश सं. 1/ 1965-66)। तथापि, निधि को प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

4. उपदान निधि को आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता प्राप्त है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 8.33% का अभिदाय करती है।

5. (i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि और उपदान दायित्व का वास्तविक मूल्यांकन किया। पेंशन निधि की देनदारी 31.10.2005 तक 1,15,15,000 रु. थी। पेंशन निधि का अतिशेष, 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 69,66,577 रु है। 31 मार्च, 2008 को प्रावधान में कमी, जो 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है, 45,48,423 रु. आई है।

शेष देनदारी के लिए प्रावधान वित्तीय वर्ष 2008-09 और पश्चात्कर्तव्य वर्षों में किया जाएगा। चूंकि 31.3.2008 को कोई वास्तविक निर्धारण नहीं कराया गया है और 1.10.2005 से 31.3.2008 तक के लिए प्रोद्भूत रकम निश्चित नहीं है।

(ii) उपदान निधि की देनदारी 31.10.2005 को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 2468197 रु. है और उसका पूर्णतः प्रावधान कर दिया गया है। 1.10.2005 से 31.3.2008 तक के उपदान की देनदारी का प्रावधान उपदान संदाय अधिनियम के आधार पर किया गया है जो 31.3.2008 को वास्तविक मूल्यांकन के अवधारण पर किया जाएगा।

6. अनुसूचित बैंकों के पास सावधिक जमा रकमों में विधि महाविद्यालयों से प्रतिभूति निक्षेप संबद्धता के रूप में प्राप्त 5,49,73,321/- रु. की रकम भी सम्मिलित है।

7. गत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

समसंख्यांक तारीख

की अपनी रिपोर्ट

के अनुसार

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

(एम.पी. ठाकुर)

लेखा अधिकारी सह-

सचिव

अध्यक्ष

भागीदार

सहायक सचिव, भा.वि.प.

भा.वि.प.

भा.वि.प.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 15 सितम्बर 2008

STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400021, the 12th January 2009

NOTICE

With reference to the Notice dated the 16th December, 2008 containing the names and addresses of the validly nominated candidates contesting for the election for the one vacancy of Director on the Central Board under Section 19 (c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following candidate has been duly declared elected as Director on the Bank's Central Board in the election held at the General Meeting of the Shareholders of the Bank on the 12th January, 2009 in the Bank's Auditorium, behind State Bank of India, Madame Cama Road Branch, State Bank Bhawan, Madame Cama Road, Mumbai-400021 (Maharashtra) :—

Shri D. Sundaram
21 B, Sterling Apartment,
Pedder Road
Mumbai-400026

S. K. BHATTACHARYYA
Managing Director & CCRO

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.

Chartered Accountants

New Delhi-110002

AUDITORS' REPORT**To the Members of BAR COUNCIL OF INDIA**

1. We have audited the attached the Balance Sheet of Bar Council of India as at 31st March, 2008 and also the Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institution's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. Attention is invited to the following :
 - (i) Note No. 5(i) appearing in Schedule 13 regarding shortfall of Rs. 45,48,423 in provision for Pension Fund.

4. Further to the above, we state that :

- (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of those books; and
- (c) The statement of Financial Position and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

5. In our opinion and to be best of our information and accounting to the explanations given to us, **subject to our observations in para (3) above**, the financial statements read together with accounting Policies and Note to Accounts (Schedule 13) give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :

- (a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Institution as at 31st March, 2008 and
- (b) In the case of the Income and expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-

(**M.P. Thakur**)
Partner
M.No. 52473

Place : New Delhi
Date : 15th September 2008

BAR COUNCIL OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2008

Schedule	As at 31-3-2008 Rs.	As at 31-3-2007 Rs.
SOURCES OF FUNDS:		
Corpus Fund 1	46,964,812.52	41,236,225.87
Earmarked Funds 2	61,659,336.27	49,439,036.49
Assets Fund (Grant-in-Aid) 3	851,404.00	334,830.00
Loans & Advances 4	2,000,000.00	2,000,000.00
Security Deposits From	52,175,000.00	47,175,000.00
Affiliated Institutions		
TOTAL	<u>163,650,552.79</u>	<u>140,185,092.36</u>
APPLICATION OF FUNDS:		
Fixed Assets 5		
Gross Block 23,071,045.34	22,277,273.24	
Less: Depreciation 17,200,810.49	<u>16,297,950.39</u>	
Net Block 5,870,234.85		5,979,322.85
Earmarked Investments 6	61,659,336.27	49,439,036.49
Other Investments		
Deposits with Scheduled Banks 7	95,218,830.00	82,331,079.00
Current Assets, Loans & Advances 8	19,551,978.10	18,590,505.67
Less: Current Liabilities & Provisions 9	<u>7,484,826.43</u>	6,419,851.65
Net Current Assets 12,067,151.67		12,170,654.02
Less: Inspection Fees		
Received in Advance 11,165,000.00	902,151.67	<u>9,735,000.00</u>
TOTAL	<u>163,650,552.79</u>	<u>140,185,092.36</u>

Notes To Accounts and Significant Accounting Policies 13

Schedules 1 to 13 form an integral part of the accounts

As per our Report of Even Date

For **THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.**

Chartered Accountants

Sd/-
Accounts Officer
cum
Asst. Secretary
B.C.I.

Sd/-
Secretary
B.C.I.

Sd/-
Chairman
B.C.I.

Sd/-
(M.P. Thakur)
Partner

Place : New Delhi

Date : 15th September 2008

BAR COUNCIL OF INDIA

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2008

	Schedule	Current Year Rs.	Previous Year Rs.
INCOME			
Fees	10	8773152.49	8,304,119.34
Inspection Fees		15,105,000.00	16,465,000.00
Registration Fees		25,000.00	90,000.00
Building Licence Fee		638,640.00	638,640.00
Other Incomes	11	8092888.16	4,572,433.00
Amount Transferred From Assets Fund (Grant-In-Aid)		233,426.00	465,170.00
TOTAL		<u>32868106.65</u>	<u>30,535,362.34</u>
EXPENDITURE			
Salaries, Allowances And Employee Benefits	12	7,909,356.00	7,506,848.00
Council's Meeting Expenses		13,234,396.00	9,761,607.00
Depreciation	5	909,715.00	1,230,112.00
Other Establishment Expenses		6,858,272.00	7,709,972.42
Municipal Taxes (Including Rs.Nil For Earlier Year Previous Year Rs. 4381603 Refer Note-1 Of Schedule-13)		79,023.00	4,412,058.00
TOTAL		<u>28,990,762.00</u>	<u>30,620,597.42</u>
Less : Recovery from Welfare Fund Towards Administration Expenses (Refer Schedule -2)	(-)	1,851,242.00	1,477,363.00
		<u>27,139,520.00</u>	<u>29,143,234.42</u>
Surplus for the Year Transferred To Corpus Fund		<u>5728586.65</u>	<u>1,392,127.92</u>

Notes To Accounts And Significant Accounting Policies

Schedules 1 to 13 form an integral part
of the accounts

As per our Report of Even Date
For **THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.**
Chartered Accountants

Sd/-
Accounts Officer
cum
Asst. Secretary
B.C.I.

Sd/-
Secretary
B.C.I.

Sd/-
Chairman
B.C.I.

Sd/-
(M.P. Thakur)
Partner

Place : New Delhi
Date : 15th September 2008

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE -- 1
CORPUS FUND

	<i>As At</i> <i>31-3-2008</i>	<i>As At</i> <i>31-3-2007</i>
	Rs.	Rs.
Balance As Per Last Balance Sheet	41,236,225.87	39,844,097.95
Add: Surplus For The Year	5,728,586.65	1,392,127.92
TOTAL	46,964,812.52	41,236,225.87

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE -- 2

EARMARKED FUNDS

		<u>As At</u> <u>31-3-2008</u>		<u>As At</u> <u>31-3-2007</u>
		Rs.		Rs.
(i) WELFARE FUND				
Balance as on 1-4-2007	36,659,235.99		29,948,580.99	
Less: Payment to BCI	1,078,433.00		763,415.00	
Net Balance as on 1-4-2007		35,580,802.99		29,185,165.99
Add: Income				
Contribution From State Bar Council	9,256,211.78		7,386,813.00	
Interest Received	3,509,309.00		1,664,094.00	
Misc Receipts	77,500.00		35,100.00	
	12,843,020.78		9,086,007.00	
Less: Assistance to Advocates	1,178,000		1,209,000.00	
Bank Charges	8,085.00		4,007.00	
Administration Expenses as per Income & Expenditure A/c	1,851,242.00	9,805,693.78	1,477,363.00	6,395,637.00
Add: Sundry Creditors-BCI			1,078,433.00
		45,386,496.77		36,659,235.99
(ii) PROVIDENT FUND				
As per Last Balance Sheet	4,798,978.93		4,257,272.93	
Add: Subscription	313,704.00		314,467.00	
Add: Voluntary Subscription	462,400.00		452,608.00	
Add: Interest Received	390,451.00		277,007.00	
	5,965,533.93		5,301,354.93	
Less: Permanent Withdrawals	
Less: Payment During the Year	166,996.00	5,798,537.93	502,376.00	4798978.93
(iii) GRATUITY FUND				
As Per Last Balance Sheet	2,860,181.57		1,771,951.57	
Add: Contribution Received	515,248.00		763,849.00	
Add: Contribution Receivable		468,435.00	
Add: Interest Received	214,132.00		109,550.00	
Less: Payment	81,837.00	3,507,724.57	253,604.00	2,860,181.57
(iv) PENSION FUND				
As per Last Balance Sheet	5,120,640.00		3,473,982.00	
Add: Contribution Received	1,427,157.00		1,465,429.00	
Add: Interest Received	543,646.00		257,131.00	
Add: Amount Receivable Ex-Employees	
	7,091,443.00		5,196,542.00	
Less: Payments	124,866.00	6,966,577.00	75,902.00	5,120,640.00
TOTAL		<u>61,659,336.27</u>		<u>49,439,036.49</u>

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 3

	<i>As at</i> 31-3-2008 Rs.	<i>As at</i> 31-3-2007 Rs.
ASSETS FUND		
(GRANTS -IN-AID)Balance as on 1-4-2007	334,830.00
Add:Grants received during the year	750,000.00	800,000.00
	1,084,830.00	800,000.00
LESS : Amount transferred to Income & Expenditure Account	233,426.00	465,170.00
TOTAL	851,404.00	334,830.00

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 4

LOANS & ADVANCES

	<i>As at</i> 31-3-2008 Rs.	<i>As at</i> 31-3-2007 Rs.
LOANS & ADVANCES		
Advance from Bar Council of India Trust	2,000,000	2,000,000
TOTAL	2,000,000	2,000,000

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 5

PART-A

FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)												
S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NE BLOCK	
			As At 1/4/2007 (1)	Additions/ Deletions (2)	Sales/ Exchange/ Adjustment -3	As At 31/3/2008 (4) = (1) + (2) - (3)	As At 1/4/2007 (5)	For the Year 2007-2008 (6)	Depreciation Adjusted (7)	As At 31-3-2008 (8) = (5) + (6) - (7)	As At 31-3-2008 (9) = (4) - (8)	As At 31-3-2008 (10)
1	Land	---	42030.00	---	---	42030.00	---	---	---	42030.00	---	42,030.00
2	Building	10%	14741937.40	---	---	14741937.40	10,905,785.06	383615.00	---	11,289,400.06	3,452,537.34	3,836,152.34
3	Lift	15%	695361.63	---	---	695361.63	663,173.13	4828.00	---	668,001.13	27,360.50	32,188.50
4	Furniture & Fittings	10%	982299.54	---	---	982299.54	615,081.00	36722.00	---	651,803.00	330,496.54	367,218.54
5	Electrical Fittings	10%	311159.55	3535.00	---	314694.55	206,291.00	10664.00	---	216,955.00	97,739.55	104,868.55
6	Office Equipments	15%	739117.90	9600.00	---	748717.90	460,023.30	42584.00	---	502,607.30	246,110.60	279,094.60
7	Air Conditioner/Cooler	15%	572754.32	---	---	572754.32	391,780.00	27146.00	---	418,926.00	153,828.32	180,974.32
8	Refrigerator/Gas	15%	17590.00	---	---	17590.00	16,839.00	111.00	---	16,950.00	630.00	741.00
9	Office Cycles	15%	9144.90	---	---	9144.90	6,854.90	---	6,854.90	---	---	2,290.00
10	Books & Publications	100%	122972.00	---	---	122972.00	113,357.00	9,615.00	---	122,972.00	---	9,615.00
11	D.G.Sel	15%	123425.00	---	---	123425.00	116,568.00	1029.00	---	117,597.00	5,828.00	6,857.00
12	Computers	50%	683747.00	12220	---	695967.00	611,082.00	49371.00	---	660,453.00	35,514.00	72,665.00
13	Water Cooler	15%	26910.00	---	---	26910.00	21,528.00	907.00	---	22,335.00	4,575.00	5,382.00
14	Transformer	15%	1069846.00	---	---	1069846.00	784,106.00	42861.00	---	826,967.00	242,879.00	285,740.00
15	Fire Fighting Equipment	15%	1338988.00	27562	---	1366550.00	920,312.00	68936.00	---	987,248.00	379,302.00	418,676.00
Total			21477273.24	52917.00	9144.90	21521045.34	15,832,780.39	676289.00	6,854.90	16,502,214.49	5,018,830.85	5644492.85
Previous Year			21078219.24	442,777.00	43,723.00	21477273.24	15093269.39	764,942.00	25,431.00	15832780.39	5644492.85	5644492.85

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE --- 5
PART-B
FIXED ASSETS

FIELD ASSETS													(Amount in Rs.)	
S.No.	Particulars	Rate Of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK			
			As At 1/4/2007 (1)	Additions/ Deletions (2)	Adjust- ment	As At 31/3/2008 (3)=(1)+(2)	As At 1/4/2007 (4)	For the Year 2007-2008 (5)	Adjust- ment	As At 31-3-2008 (6)=(4)+(5)	As At 31-3-2008 (7)=(3)-(6)	As At 31-3-2007 (8)		
1	Building	10%	26,651.00	383,846.00	---	410,297.00	2,665	21,581.00	---	24,246	386,051.00	23,986.00		
2	Furniture & Fittings	10%	124,248.00	60,377.00	---	184,625.00	12,425	14,201.00	---	26,626	157,999.00	111,823.00		
3	Air Conditioner/Cooler	15%	47,700.00	51,800.00	---	99,500.00	7,155	9,967.00	---	17,122	82,378.00	40,545.00		
4	Books & Publications	100%	205,211.00	81,693.00	---	286,904.00	205,211	40,846.00	---	246,057	40,847.00	---		
5	Computers	60%	396,190.00	172,484.00	---	568,674.00	237,714	146,831.00	---	384,545	184,129.00	158,476.00		
	Total		800,000.00	750,000.00	---	1,550,000.00	465,170	233,426.00	---	698,596	851,404.00	334,830.00		
	Grand Total (A + B)		22,277,273.24	802,917.00	9,144.90	23,071,045.34	16,297,950.39	909,715.00	6,854.90	17,200,810.49	5,870,234.85	899,272.85		
	Previous Year		21,078,219.00	1,242,777.00	43,723.00	22,277,273.24	15,093,269.39	1,230,112.00	25,431.00	16,297,950.39	5,979,322.85	---		

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE -- 6

EARMARKED INVESTMENTS

	As at 31-3-2008 Rs.	As at 31-3-2007 Rs.
(I) WELFARE FUND INVESTMENTS		
Balance In Uco Bank-Savings A/c.9363	764432.99	177,169.99
Fixed Deposit With Uco Bank	13,331,950.00	13,331,950.00
Fixed Deposit With Central Bank	2,562,549.00	2,562,549.00
Fixed Deposit With S.B.I	13,459,889.00	13,459,889.00
Fixed Deposit With Syndicate Bank	5,074,580.00	5,074,580.00
Fixed Deposit With Allahabad Bank	5,431,000.00	1,931,000.00
Accrued Interest	3,596,803.00	122,098.00
Sundry Debtors-BCI	1,165,292.78	,-----
	45,386,496.77	36,659,235.99
(II) PROVIDENT FUND INVESTMENT		
Balance in UCO Bank S.B. A/c 261025	514830.09	394,025.09
Special Deposit -UCO Bank	1,190,217.00	1,190,217.00
FDR-UCO Bank	1,654,828.00	854,828.00
Fixed Deposit with Central Bank	360,237.00	360,237.00
Fixed Deposit with Syndicate Bank	1,129,858.00	1,129,858.00
Fixed Deposit with State Bank of India	500,000.00	500,000.00
P.F.Loan	140,027.29	330,327.29
Accrued Interest	308,540.55	39,486.55
	5798537.93	4,798,978.93
(III) GRATUITY FUND INVESTMENT		
Balance in UCO Bank- Saving A/c 440	481,055.07	332,322.07
Special Deposit - UCO Bank	318,433.00	318,433.00
Fixed Deposit with UCO Bank	2,528,423.00	1,728,423.00
Accrued Interest	179,813.50	12,568.50
Sundry Debtors -BCI	,-----	468435.00
	3,507,724.57	2860181.57
(IV) PENSION FUND INVESTMENT		
Balance In Canara Bank S.B. A/c. 19116	91,808.00	80,637.00
Fixed Deposit - Syndicate Bank	300,000.00	,-----
Fixed Deposit - Central Bank	2,679,937.00	2,679,937.00
Fixed Deposit -Canara Bank	1,463,701.00	1,463,701.00
Fixed Deposit - Allahabad Bank	427,000.00	427,000.00
Fixed Deposit - with State Bank of India	450,000.00	450,000.00
Fixed Deposit - UCO Bank	1,000,000.00	,-----
Accrued Interest	554,131.00	19,365.00
	6,966,577.00	5,120,640.00
TOTAL	<u>61,659,336.27</u>	<u>49,439,036.49</u>

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 7

OTHER INVESTMENTS

	<u>As at</u> <u>31-3-2008</u>	<u>As at</u> <u>31-3-2007</u>
	Rs.	Rs.
FIXED DEPOSITS WITH BANKS		
BAR COUNCIL OF INDIA		
Allahabad Bank	3,000,000.00
Central Bank	3,271,308.00	3,271,308.00
Canara Bank	2,956,644.00	2,956,644.00
UCO Bank	6,067,205.00	6,067,205.00
SBI	2,000,000.00	2,000,000.00
Syndicate Bank	2,500,000.00
	19,795,157.00	14,295,157.00
LEGAL EDUCATION		
UCO Bank	587,751.00	500,000.00
Canara Bank	7,873,167.00	7,873,167.00
Central Bank	2,113,652.00	2,113,652.00
State Bank Of India	2,584,691.00	2,584,691.00
Syndicate Bank	3,749,091.00	3,749,091.00
Allahabad Bank	3,542,000.00	2,042,000.00
	20,450,352.00	18,862,601.00
SECURITY DEPOSIT FROM LAW COLLEGES (AFFILIATION)		
Canara Bank	7,263,639.00	7,263,639.00
Central Bank	7,021,475.00	7,021,475.00
UCO Bank	10,885,139.00	7,885,139.00
State Bank of India	10,507,368.00	10,507,368.00
Syndicate Bank	8,481,700.00	8,481,700.00
Allahabad Bank	10,814,000.00	8,014,000.00
	54,973,321.00	49,173,321.00
TOTAL	95,218,830.00	82,331,079.00

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE — 8
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	As at 31-3-2008 Rs.	As at 31-3-2007 Rs.
CURRENT ASSETS		
a) STOCK OF BOOKS AT COST (As Certified by the Management)	7,264.00	10,264.00
b) CASH & BANK BALANCES		
Canara Bank-31050	2,615,406.68	2,865,903.74
UCO Bank -132	634,343.81	899,035.81
Canara Bank-31065	311,105.90	1,502,798.90
Canara Bank-31313	700,754.00	751,314.00
Balance with Banks in		
Different States	4,545,679.26	8,589,831.77
Cash in Hand	68,379.25	55,510.25
	8,875,668.90	14,664,394.47
c) AMOUNT RECEIVABLE		
i) Interest Accrued on Investments	8,165,464.00	329,561.00
ii) Security Deposits	1,230,417.00	1,230,417.00
(With Desu & Mcd + Dvb & Tel.(Reliance)		
iii) From State Bar Councils	81,314.20	81,314.20
iv) Sundry Debtors Banks	---	155,739.00
v) Sundry Debtors-Trust	43,976.00	64,542.00
vi) Sundry Debtors-Others	---	22,584.00
vii) Sundry Debtors-Welfare Fund	---	1,078,433.00
viii) Inspection Fees Receivable	15,000.00	---
	9,536,171.20	2,962,590.20
d) LOANS & ADVANCES		
i) Loan to Staff	783,095.00	546,383.00
(Housing, Marriage & Other)		
ii) Advances - Members	5,000.00	5,000.00
- Staff	204,210.00	177,351.00
- Others	57,200.00	7,300.00
iii) Prepaid Expenses	83,369.00	73,520.00
iv) Loan to BCIT	---	143,703.00
	1,132,874.00	953,257.00
Total	<u>19,551,978.10</u>	<u>18,590,505.67</u>

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE --- 9
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

	<i>As at 31-3-2008</i>	<i>As at 31-3-2007</i>
	Rs.	Rs.
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
Sundry Creditors	133,996.00	153,239.00
Due to Gratuity Fund	296,360.00	468,435.00
D.C. Deposit Fees	807,574.65	666,574.65
Unutilised Grant-in-Aid from Law Ministry	700,000.00	750,000.00
Due to Welfare Fund	1,165,292.78	—
Municipal Taxes Payable	4,381,603.00	4,381,603.00
TOTAL	<u>7,484,826.43</u>	<u>6,419,851.65</u>

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE --- 10
FEES

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Enrolment Fees	7,341,978.49	7,458,580.34
Membership Fees/Transfer Fees	824,400.00	489,335.00
D.C. & Other Fees	606,774.00	356,204.00
TOTAL	<u>8,773,152.49</u>	<u>8,304,119.34</u>

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE -- 11
OTHER INCOMES

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Interest on FDRs	7,923,654.00	4,461,420.00
Interest on Loans & Advances	55,188.00	40,577.00
Miscellaneous Income	114,046.16	70,436.00
TOTAL	8,092,888.16	4,572,433.00

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 12

EXPENDITURE

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
SALARIES, ALLOWANCES & EMPLOYEE BENEFITS		
Establishment/Salaries	4,857,012.00	4,419,403.00
Medical Reimbursement	223,351.00	221,722.00
Bonus	43,599.00	46,873.00
Leave Encashment	183,117.00	109,020.00
Leave Travel Concession	20,598.00	25,310.00
Council Cont.to G.F.A/c	811,608.00	968,435.00
Council Cont to Pension Fund A/c.	1,427,157.00	1,465,429.00
Staff Conveyance	342,914.00	250,656.00
	7,909,356.00	7,506,848.00
COUNCIL'S MEETING EXPENSES		
Travelling -- Council	2,513,109.00	2,250,292.00
Travelling --D.C. Mtg	4,169,061.00	3,239,350.00
Travelling - Inspection	4,944,904.00	2,679,177.00
Travelling-LE Mtg.	1,500,914.00	1,497,145.00
Meeting Expenses	106,408.00	95,643.00
	13,234,396.00	9,761,607.00
OTHER ESTABLISHMENT EXPENSES		
Printing & Stationery	650,072.00	612,911.00
Water & Electricity	941,470.00	917,237.00
Advt./Gazette Notification	181,546.00	18,260.00
Postage, Telegram & Telephone	518,544.00	451,331.00
General Repairs	334,375.00	267,412.00
Court Proceedings/Income Tax Fees		
Professional Expenses	92,560.00	198,894.00
Periodical & Journal	2,116.00	2,070.00
Audit Fees	33,445.00	18,520.00
Bank Charges	32,315.00	31,057.00
Miscellaneous Expenses	144,350.00	141,039.42
Contribution to State Bar Councils	823,164.00	550,000.00
Contribution to Bar Council of India Trust	2,240,000.00	3,680,000.00
Seminar Expenses	67,367.00
Conference Expenses	620,943.00	399,888.00
Felicitation Expenses	84,789.00	199,250.00
Subscription to IBA	
Security Charges	107,868.00	107,585.00
Subscription to IIC	11,224.00	11,020.00
Insurance Premium	37,201.00	35,754.00
Loss on Sale of Fixed Assets	377.00
Loss on Fixed Assets (Written off)	2,290.00
	6,858,272.00	7,709,972.42
TOTAL	<u>28,002,024.00</u>	<u>24,978,427.42</u>

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 13

ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS AS ON MARCH 31, 2008

A. ACCOUNTING POLICIES :

1. Income and expenditure are recognised on accrual basis except contribution towards Welfare fund which is accounted for on receipt basis and inspection fee for law colleges and expenses thereto is recognised on inspection of law colleges.
2. **Fund :**
The word "fund" has been used to denote the intention to keep the balances invested ultimately.
 - (i) Corpus Fund represents donations received from Law Colleges and others and annual surplus/deficit of the Bar Council of India.
3.
 - (i) Interest pertaining to a specific fund has been credited to the respective fund account.
 - (ii) Interest income accrued at the end of the year on FDR with scheduled Bank has been recognised on the basis of simple rate of interest.
4. Fixed Assets are stated at historical cost less depreciation.
5. Depreciation on Fixed Assets is provided on Written Down Value method, at the rates prescribed under the Income Tax Act, 1961.
6. Government grants are recognised on receipt basis. Government grants related to specific Fixed Assets are treated as deferred income which is recognised in the account on a systematic and rational basis over the useful life of the assets.
7. Investments have been classified as 'long term investments' and are carried at cost since all the investments have been held in fixed deposits with scheduled banks.
8. **Retirement Benefits**
 - i) Pension-cum-Family Pension Rules of the Employees of the Bar Council of India, w.e.f. 1-4-2002 has been made applicable to the employees of the Bar Council of India. Accordingly the "BCI-Contributory Provident Fund" has been discontinued and in its place pension fund has been introduced. The contribution made earlier by Bar Council of India to Contributory Provident Fund alongwith accrued interest has been transferred to the Pension Fund. Bar Council of India makes its contribution to the fund at the specified rate.
 - ii) General provident Fund Account of the Employees of the Bar Council of India represent the amount of subscription of employees at the applicable rate of the pay together with accrued interest thereon.

- iii) The Bar Council of India has maintained a special fund called "Gratuity Fund". Contribution to this fund is made @ 8.33% of the eligible pay. The fund is administered by the Trustees appointed by the Council.
- iv) The leave encashment is accounted for on payment basis

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. Municipal Tax :

M.C.D. vide notice dated 1-12-2004 has raised a demand of Rs. 1,46,42,943/- (based on rateable value of Rs. 33,52,970/- p.a.) for the period from 1-4-1991 to 31-3-2004 on the basis of assessment order passed on 26-3-1995. As per the direction dated 13-2-1997 of the Hon'ble High Court Delhi and perusal of documents filed by the Council, Jt. Assessor & Collector (CZ) has reassessed the property as Remanded Case on 17-3-2006 and the rateable value of property has been fixed at Rs. 6,56,240/- w.e.f. 1-4-1994 and the rateable value of plot at Rs. 2000/- w.e.f. 1-4-1991 and directed for issue of bill as per use. Pending receipt of the bill from the MCD, the Bar Council of India has paid a sum of Rs. 21,71,360/- for the period from 1-4-1991 to 31-3-2004 during the financial year 2005-2006 and recognised as expenditure

Asstt. Assessor & Collector vide notice dated 1-12-2006 has raised an additional demand for property tax for Rs. 43,81,603 from 1-4-1991 to 31st March, 2004 based on the revised rateable value as per High Court directive. This additional tax has been provided for in the accounts as on 31.3.2007, however the details of calculation for such demand is yet to be provided by the MCD.

2. Welfare Fund

- a) Welfare Fund represents contribution received from Advocates in accordance with the Bar Council of India Rules.
- b) 20% of Welfare Fund is credited to Income & Expenditure Account of Bar Council of India as recovery of administrative expenses.

3. Provident Fund is recognised under rule 3(1) of the part -A of the IVth schedule of the Income Tax 1961 vide letter No.JP-1(6)/63/3332 dated 25-12-1965 (order No.1 of 1965-66). However the fund is not recognised by the Regional Provident Fund Commissioner.

4. Gratuity Fund is recognised under the Income Tax Act 1961. Bar Council of India contributes 8.33% of the basic pay and dearness allowance of the employees.

5. (i) Bar Council of India has undertaken an actuarial valuation of Pension Fund and Gratuity liability as on 31-10-2005. The liability for the pension fund upto 31-10-2005 was Rs. 1,15,15,000/-. The balance of Pension Fund as per accounts as on 31-3-2008 stands at Rs. 6966577/-. The shortfall in provision as on 31st March 2008 based on the actuarial valuation as of 31-10-2005 comes to Rs. 45,48,423/-

The provision for remaining liability would be made in the financial year 2008-09 and in subsequent years. Since no actuarial valuation as at 31-3-2008 has been

got done as such the amount accrued from 1-10-2005 to 31-3-2008 is unascertained.

- (ii) The liability on account of Gratuity Fund as per actuarial valuation as on 31-10-2005 amounts to Rs. 24,68,197 and the same has been fully provided for. The provision for gratuity liability from 1-10-2005 to 31-3-2008 has been made on the basis of The payment of Gratuity Act pending determination of the actuarial valuation as on 31.3.2008

6. Fixed deposits with scheduled bank includes Rs. 5,49,73,321/- received from Law Colleges as Security deposit for affiliation.
7. Previous year figures have been regrouped/reclassified wherever considered necessary.

As per our Report of even date
for **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.,**
Chartered Accountants

Sd/-
(M.P. Thakur)
Partner

Sd/-
Accounts Officer
cum
Asst. Secretary
B.C.I.

Sd/-
Secretary
B.C.I.

Sd/-
Chairman
B.C.I.

Place : New Delhi
Date : 15th September 2008